FINANCIAL EXPRESS

FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Regional Director. Delhi Northern Region In the matter of section 13 (4) of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5)of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of M/S LYNX BUSINESS PRIVATE LIMITED having its Registered Office at Flat No-104, South-Extension Centre 273-Masjid Moth NDSE-II New Delni-110049 Petitionei

Notice is hereby given to General Public that the company process to make the application to the Contral Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of The company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on FRIDAY, 06" DAY OF NOVEMBER 2020 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana", Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change, may deliver either on. MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR. PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

Flat No-104, South-Extension Centre 273-

Place : Delhi

Date: 11 02 2021

(Director)

DIN: 00078583

Masild Moth NDSE-II New Delhi-110049 For and or behalf of applicant Manoi Kumar Mittal

Date 15.02.2021 Place: New Delhi

AMSONS APPARELS LIMITED CIN NO: L74899DL2003PLC122286

REG. OFFICE: 300, 2nd Hoor, Plot No.1 I-A. Veer Complex, Veer Savarkar Block. Shakarpur Dehr \10092. STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2020

				ount in Lakh)	
	Annual Control of the	per Ended	Period Ended	Year Ende	
Particulars	3 Months Ended 31/12/2020 Unaucood	Preceding 3 Months Ended 30.09.2020 Unaudiled	Year to rigure for Current year onded 31.12.2020 Uraudisc	Previous Year Ended 31 03 2020 Audited	
Total Income	6.51	6.79	18.69	28.70	
Net Prefit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Jerns#)	0.16	0.18	0.79	2.44	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#i	0 16	0,15	0.79	2 44	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items#)	0.16	0.48	0.79	0.32	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Offier Comprehensive Income (after tax)]	0:16	0:18	0.79	0.92	
Equity Share Capital	2227.70	2227.70	2227.70	2227,70	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 31.03.2020	31.58	31,58	21.58	31.58	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Divided.	0.001 0.001	0.002 0.002	0.003 0.003	0 005 0.005	

The above is an extract of the detailed formal of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Website of Slock Exchange (s) www.bseindia.com and on the Company's website

The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant Financial Item (s) due to change(s) in Accounting policies shall be disclosed by means of a footnote 4 - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss it accordance with ind-AS Rules/ AS Rules. Whichever is applicable.

By Order of the Board For AMSONS APPARELS LIMITED AGUSTEEN KACHHAP JOINT PUBLIC NOTICE

CHANGE OF MANAGEMENT AND TRANSFER OF CONTROL

M/S MEET FINANCE PRIVATE LIMITED This is to inform you that Mis Meet Finance Private Limited ("Company") having registration number U74899DL1983PTC015000, is a Non-Banking Financial Company and have a valid Certificate of

Registration vide B-14.01621 dated 7/02/2000 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 for carrying on pusiness of NBFI n terms of compliance of provision Direction No. 61 to 63 of Chapter IX (i.e Acquisition/Transfer of Control of Applicable NBFCs) of the Non-Banking Financial Companies Non Systematically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 the Company had submitted application to the Reserve Bank of India, Department of Supervision (NBFC), 6, Sansad. Marg, New Delfti, 110001, for saeking prior approval for change of Control and Management of the Company, in response of the said application the Reserve Bank of India granted its approval

700/CMS-VI/05.13.091/2020-21 dates 0415 February 2021 Accordingly, after expiry of 30 days from the date of publication of this notice the control and management of the Company which is at present in the hands of M/s. Kiran Capital Services Limited, Mrs. Seema Relan, Mr. Ankur Retan, Mr. Satish Kumar Retan and S.K. Retan (HUF) shall be vested jointly in the name of Mr. Brajesh Kumar Rai, Mr. Kamlesh Jagdesh Prasad Rai, Mr. Vipul Singh, Mr. Jai Shankar Singh, Mr. Sheshdhar Singh and Mr. Shyam Dhar Singh. The Board of Directors of the Company shall be re-constituted and existing Directors of the Company namely Mr. Ankur Relan and Ms. Seema Retan shall resign and Mr. Ashish Upadhyaya, Mr. Braiesh Kumar Rai and Mr.

of change of control and management of the Company vide approval no. DOS (NBFC) ND. No.

Karillesh Jagdesh Prasad Rai shall be appointed as new directors of the Company. Any person including creditor having any objection to this change in control and management of the Company may write to the Company at its registered office at 6/79, W.E.A., IIIRD FLOOR, PADAM SINGH ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHII 110005 India and of the General Manager of the Department of Supervision INBFC). Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi, Delhi

This notice is being given in terms of compliance of Direction No. 64 of the Non-Banking Financial Companies Non Systematically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions,

2016 jointly by the Transferor(s). Transferee(s) and the Company. Jointly Issued by

M/s MEET FINANCE PRIVATE LIMITED Transferors mentioned above Date 13/02/2021 Place: New Demi Transferees mentioned above

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC030092

Regd. Office: 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi -110008

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS PERIOD ENDED 31.12.2020

Tel.: (91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 | Fax: (91-11) 2575 1937/38 | Email: narendermakkar@yahoo.com | Website: www.phoenixindia.com

₹ in Lacs STANDALONE CONSOLIDATED QUARTER ENDED QUARTER ENDED NINE MONTHS PERIOD **NINE MONTHS PERIOD** Particulars 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED Total income from operations (net) 678.78 1,174.43 1,924.82 3,467.05 678,78 1,174.46 1,924.82 3,467.05 Net Profit / (Loss) from ordinary activities 41,94 13.96 212.30 189.52 44.05 2,95 200.44 178,41 after tax Net Profit / (Loss) for the period after tax 38.08 11.72 204.57 183,90 38.26 0.71 192.71 172.79 (after Extraordinary items) Equity Share Capital 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous Earnings Per Share (before extraordinary

items) (of <10/- each) Basic & Diluted Notes:

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13.02.2021 Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

0.07

0.07

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website http://Phoenixindia.com By order of the Board

1.22

1.22

1.10

1.10

For Phoenix International Limited

1.15

1.15

5d/ Narender Kumar Makkar Director Din No.: 00026857

1.03

1.03

Place: Delhi Date: 13/02/2021

Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2054) Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another Before the Regional Director, Delni Northern Region

FORM NO. INC-26

Items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted

Earnings Per Share (after extraordinary

In the matter of section 13 (4) of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5)of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

in the malter of M/S TIME PORTFOLIO LIMITED having its Registered Office at 104, South Extension Centre 273-Mastid Moth NDSE-II New

Delhi-110049. Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed

at Extra ordinary General Meeting held on FRIDAY, 06" DAY OF NOVEMBER 2026 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor by an affidavit stalling the nature of his/her interest Director at the Address 8-2 WING, Znd FLOOR FARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 1100d3, within 14 Days of date of

address mentioned below 104. South-Extension Centre 273-Masjid Moth NDSE-II New Delhi-110049. For and on behalf of applicant

publication of this notice with a copy to the

applicant company at its registered office at the

Manoj Kumar Mittal Date: 15.02.2021 Place: New Delhi

FORM NO. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in Newspape for the change in Registered Office of the

0.23

0.23

Company from one state to another Before the Regional Director. Delhi Northern Region In the matter of section 13 (it) of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5)of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

in the matter of M/S ANAND BHAWAN SAFETY VAULTS PRIVATE LIMITED having its Registered Office at 104, South-Extension Centre NDSE-II New Delhi-110049. Notice is hereby given to General Public that the

company proposes to make the application to the Central Government under section 12 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting field on FRIDAY, 06" DAY OF NOVEMBER 2020 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on

MCA portal (www.mcs.gov.in) by filling investor registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of apposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

104, South-Extension Centre NDSE-II New Delhi-110049 For and on behalf of applicant

SURBHIL JAIN (Director) DIN 08092137

(Director) Date: 15.02.2021 DIN: 00076583 Place: New Belli AASHRIT CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS JALAN CEMENT WORKS LIMITED)

	RT I rticulars	3 Months Ended	Correspoding 3 Months Ended	Year to Date 31.12.2020
1		31.12.2020 Unaudited	In Previous Year 31.12.2019 Unaudited	Unaudited
1	Total irricome from operations (net)	286.46	479.19	540.70
2	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	70.19	25.46	107.42
3	Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	70.19	25 46	107.42
4	Net Profit/(Loss) for the period (11-12)			
5	Total Comprehensive Jiroonie for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	57,64	21,51	87.72
6	Paid-up equity share capital /11202540 equity shares of Rs. 10)	1.120.25	1,120,25	1,120,25
7	Reserve excluding revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year			- 0.01
8	Earnings Per Shares (EPS) (for continuing and discontinued operations a) Basic b) Diluted	0.51 0.51	0.19 0.19	0.78 0.76
	SEGMENT R	EPORTING	-	
1	Segment Revenue a) Segment-NBFC b) Segment- Real Estate	286.46	479:19	540.70
	c) Unallocated Total Less Joles Segment, Revenue	286.46	479.19	540.70
Ш	Gross Revenue	286.46	479.19	540.70
2	Segment Results a) Segment-NBFC b) Segment- Real Estate	70.19	25.46	107.42
Ш	ci Unallocated Profit/Loss Before Tax	70.19	25.46	107.42
3	Segment Assets			
	at Segment-NBFC b) Segment-Real Estate c) Unallocated	18,088.22 275.00	10,081.93 275.00	18,088.22 275,00
	Total Assets	18,363.22	10,356.23	18,363.22
4	Segment Liablities a) Segment-NBFC b) Segment- Real Estate	2,42.25	357.63	2,424,25
	c) Una ocated	A RESTORAGE	200.75	

Notes: The above financial results for the quarter ended on 31st December 2020 have been reviewed by the audit Committee and approved by the board at their respective meetings held on 13.02.2021

Total Liabilities

The Limited Review of the results has been completed by the Stalistory Auditors of the Company. As per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment" the Company's business falls within a single business segment.

The Company has adopted ind AS 17 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any moterial impact on the profit of the current quarter

Previous period figure has been regrouped/rea/ranged wherever necessary.

For Aashril Capital Limited (Formerly known as Jalan Cement Works Limited) Prateek Arora Managing Director DIN: 07189849

357.63 2.424.25

Place: Gurgaon

Sale Notice under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 **E-Auction Sale Notice**

0.23

0.23

0.00

0.00

MAS PROJECT ENGINEERS PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Regd Office: 1st Floor, Neelkanth Chambers-IV Plot No. 6, Local Shopping Complex, Rishabh Vihar Delhi 110092

Liquidator: Ashok Kumar Juneja (IP Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286) Email: masproject.liquidator@gmail.com Mob. No. +91-9810532462 Tentative Auction: 5th March, 2021 from 2:00 P.M. to 5:00 P.M.

(With an unlimited extension of 5 Minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by Mas Project Engineers Pvt Ltd. (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate of Mas Project Engineers Pvt Ltd. in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi vide order dated 30.10.2019. The sale of properties will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

S. No	Asset	Location	Reserve Price (in INR)	Earnest Money Deposit (in INR)	Incremental Value (in INR)	Mode of Sale (e-auction)
1	Furniture & Fixture	LB-11, 21, Indra Prakash Building	30,000	5,000	2,000	Lot
	Computer Items	& Vijaya Building, Barakhamba	29,000	5,000	2,000	Lot
3	Air Conditioners	Road, Delhi- 110001	15,000	3,000	1,000	Lot
4	Toyota Liva	Underground Palika Bazar Parking, Connaught Place, New Delhi- 110001	1,35,000	15,000	10,000	Standalone

Terms and Condition of the E-auction are as under:

. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

2. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "MAS Project Engineers Pvt Ltd - in Liquidation", Account No.: 10050918845, Name of Bank: IDFC First Bank. Branch: Barakhamba Road, Birla Towers, LGF, Central Delhi - 110001, IFSC Code - IDFB0020101, drawn on any Scheduled Bank, payable at Delhi.

3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: Mr. Praveen Kumar Thevar, at +91-9722778828 - 079 6813 6854/55/51 079-6813 6800 E-mail: prayeen.thevar@auctiontiger.net &nclt@auctiontiger.net

Ashok Kumar Juneja (LL.B, FCS, ACMA, DBF, ADICA, M. COM) (Liquidator of MAS Project Engineers Pvt. Ltd) IBBI Reg. No IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286 Address: 1203, Vijaya Building, 17 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001 Email: masproject.liquidator@gmail.com

Date: 16.02.2021 Place: Delhi

> ANKA INDIA LIMITED CIN: L74900HR1994PLC033268;

REGD OFF: VILLAGE KHERKI DAULA, P.O. NARSINGPUR, DISTT, GURGAON, HR 122001 Phone no: 0124-2322570; website: www.ankaindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31" DEC, 2020

S.	Particulars	Quarter ended (Unaudited)				
N.		31-Dec-20 Unaudited	31-Dec-19 Unaudited	31-Mar-20 Audited		
1	Total Income from Operations (net)		0.05	11.03		
2	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.40)	(1.31)	0.56		
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.40)	(1.31)	0.56		
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.40)	(1.31)	0.56		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	~	*	10		
6	Equity Share Capital (Having Face Value of Rs 10 Each)	62.74	62.74	62:74		
7	Other Equity	NA	NA.	NA.		
8	Earnings Per Share (before Extraordinary items) (Face Value of Re.10/- each)					
	Basic	(0.02)	(0.02)	0.01		
	Diluted:	(0.02)	(0.02)	0.01		

2015. The full format of Statement of Standatone audited Financial Results. for the Quarter ended 31"December, 2020 are available on the Stock Exchange websites at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at I www.ankaindia.com). 2. The Company continues to recognise minimum alternative tax paid in previous years amounting to Rs, 25,20 Lakhs as asset and expects

The Company has not deposited TDS with the Government Treasury amounting to Rs. 52000 deducted during the previous financial year

the same to be adjusted against future tax payments. The auditors have modified their review report for this matter.

i.e. 2019-20 and Rs. 36,250 deducted during the period April 20-June 20 of the current financial year i.e. 2020-21 as at the end of our review period and also defaulted in filling return thereof. The auditors have modified their review report for this matter . The Company has not deducted TDS amounting to Rs. 9,593 u/s 194J during the quarter ending Dec 2020. The auditors have modified their review report for this matter. By order of the Board

Date: 14/02/2021

For ANKA INDIA LIMITED Sulakshana Trikha

Amount Rs. In Lac

PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED

CIN: L45202DL1985PLC019746 Regd. Office: 23, IInd Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 31.12.2020

		Quarter Ende	ed	Nine Months ended Year ende		
Particulars		30-Sep-20 Unaudited				31-Mar-2 Audited
Revenue from operations						
Interest income	1.38	2.49	7.68	3.88	42.52	63.06
Total revenue from operations OTHER INCOME	1.38	2.49	7.68	3.88	42.52	63.06 0.36
TOTAL INCOME EXPENSES	1.38	2.49	7.68	3.88	42.52	63.42
Finance Cost	-		0.03	-	10.21	71.80
Impairment on financial instruments	-		-	-	-	128.5
Employee Benefits Expenses	0.25	0.50	2.02	0.75	15.31	15.7
Depreciation and Amortisation Expenses	-	-	-	-	-	3.6
Other expenses	0.34	0.04	2.02	0.51	8.22	13.4
TOTAL EXPENSES	0.59	0.54	4.07	1.26	33.74	233.1
Profit before exceptional items and tax	0.79	1.95	3.61	2.62	8.78	(169.75
Exceptional items						
Profit before tax	0.79	1.95	3.61	2.62	8.78	(169.75
Tax expenses						
Current tax	0.21	0.51	0.94	0.68	2.28	
Deferred tax credit/(charge)	-	-	-	-	-	(32.56
PROFIT FOR THE PERIOD (A)	0.58	1.44	2.67	1.94	6.50	(137.19
OTHER COMPREHENSIVE INCOME						
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss						
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss						
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD (B)		4.44	0.07	4.04	0.50	(407.40
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD (A+B)		1.44	2.67	1.94	6.50	(137.19
Paid up Equity Share Capital (Face value Re. 1 per share) Other Equity	821.25	821.25	821.25	821.25	821.25	821.2
Earnings per equity share (Face value of Re. 1 each)						
Basic (in Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Diluted (in Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

1. The Financial Results for the Quarter ended 31.12.2020 were approved and adopted in the meeting of Board of Directors held on 14th Segment reporting is not applicable as the company activity falls within a single buisness segment.

Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

No Shareholder complaints/grievances has been received during the above referred quarter and no complaint/grievances are lying

unresolved at the end of the quarter ended on 31.12.2020

The above results are available on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com & on company website a www.panafic.industrials@gmail.com

For and on behalf of Board of Directors of

Panafic Industrials Limited

Sarita Gupta

DIN: 00113099

Managing Director

Place: New Delhi Date: February 14, 2021

> Phoenix ARC Private Limited Regd. Office: Dani Corporate Park, 5th Floor, 158, C.S.T Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai -400098,
> Phoenix AFG Tel: 022- 6849 2450, Fax : 022- 6741 2313, CIN: U67190MH2007PTC168303 Email: info@phoenixarc.co.in; Website: www.phoenixarc.co.in

ONLINE E- AUCTION SALE OF ASSETS

PUBLIC NOTICE FOR ONLINE E- AUCTION In exercise of the powers under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (in short referred to as SARFAESI Act) and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (in short referred to as RULES) and pursuant to the possession of the secured assets mentioned hereunder vested with the Authorised Officer under the said SARFAESI Act and RULES fo recovery of the secured debts, the Authorised Officer has decided to sell the secured assets by auction sale.

Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers/guarantors/mortgagors in particular, that the under mentioned properties mortgaged to Phoenix ARC Private Limited acting in its capacity as Trustee of the respective trusts mentioned below (Phoenix) (pursuant to assignment of debt by various Banks mentioned below (Assignor Banks) in favour of Phoenix vide the respective Assignment Agreements more particularly mentioned below) will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WITHOUT RECOURSE" condition, by way of ar 'online e-auction" for recovery of dues and further interest, charges and costs etc. as detailed below in terms of the provisions of SARFAES Act read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) through website https://www.bankeauctions.com

ITEM NO.1 Name of the Borrower | M/s. Tirath Ram Vinod Kumar & Co. represented through its proprietor Mr. Vinod Kumar Sharma Name of the Guarantor Mrs. Vanita Rani Details of Assignment: Assignor Bank: South Indian Bank, Trust – Phoenix Trust-FY 17-8 &Date of Assignment –17.03.2017 Amount due: Rs. 3.97,54,793/- (Rupees Three Crore Ninety-Seven Lakh Fifty-Four Thousand Seven Hundred Ninety-Three Only) as on 31.03.2016 along further interest till the date of repayment of dues in full together with incidental expenses, costs and charges as per the Demand Notice dated 03.05.2016 issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002. Possession details Physical possession taken on 20.03.2019 Date and Time of On Request Inspection of Property Last Date of submission 08.03.2021 (Monday) before 7 PM

of Bid (E- Auction) Earnest Money Deposit The Earnest Money has to be deposited by way of RTGS/NEFT Favouring "PHOENIX TRUST FY17-8", Current Account: 0812529164; Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Bandra East, IFSC Code: KKBK0001368 **EMD** amount Rs.10,90,000/- (Rupees Ten Lakhs Ninety Thousand Only)

Reserve Price Rs.1.09.00.000/- (Rupees One Crore Nine Lakhs Only) Bid Increment Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) & in such multiples Date & Time of E- Auction 09.03.2021 (Tuesday) between 11.00 a.m. to 12.00 noon Mode of E- Auction Online – e auction Link for the tender http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzQ0 documents Description the All that part and parcel of residential property admeasuring 162 sq. yards with building and other improve

Secured Asset being ments therein in, House No. T-209, out of Khasra No. 214, Village Narela, Indira Colony, Delhi – 110040 auctioned. owned by Mr. Vinod Kumar Sharma S/o Lt. Sh. Tirath Ram Sharma more particularly described in Sale Deed No. 1785 dated 14.02.2008 of SRO VIA, Pitampura, Delhi bounded by: North: House of Ja Prakash Sharma, South: Road, East: House of Mahinder Singh Dahiya, West: Gali ITEM NO.2 Name of the Borrower | Diyana Polyfeb Limited Name of the Guarantor Mr. Deepak Khurana, Mrs. Jaanam Khurana, Mr. Manohar Lal Khurana and Mr. Digvijay Singh

/Co-Obligant/Mortgagors Details of Assignment: Assignor Bank - Dhanlaxmi Bank Limited, Trust - Phoenix Trust FY 14-18, Date of Assignment - 28-03-2014 Amount due: Rs.5,29,73,231.69 (Rupees Five Crores Twenty Nine Lacs Seventy Three Thousand Two Hundred Thirty One and Sixty Nine Paise Only) as on 30.09.2013 along with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount with effect from 01.10.2013 together with incidental expenses, cost and charges etc. as per the Demand Notice dated 24.10.2013 issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002. Possession details Physical possession taken on 11.02.2020

Date and Time of On Request **Inspection of Property** Last Date of submission 08.03.2021 (Monday) before 7 PM of Bid (E- Auction) Earnest Money Deposit The Earnest Money has to be deposited by way of RTGS/NEFT Favouring "PHOENIX TRUST FY14 18". Current Account: 4611411521: Kotak Mahindra Bank Limited. Branch:Kalina. IFS0 Code:KKBK0000631 **EMD** amount Rs.7,72,500/- (Rupees Seven Lakhs Seventy TwoThousand Five Hundred Only) Reserve Price Rs.77,25,000/- (Rupees Seventy Seven Lakhs Twenty Five Thousand Only) Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) & in such multiples **Bid Increment**

Mode of E- Auction Online – e auction Link for the tender http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzQ2 documents **Description** of the All That Land Of Plot Numbered F-237 Situated Within The Industrial Area At MasuriGulawathiRoad Secured Asset being Industrial Area In Tehsil Hafuz District Ghaziabad Containing By Admeasuring 640.50 Sq.Mtrs. Bounded By: On North By: Plot No. F 236 On South By: Plot No. F- 238. On East By: Boundary Line and On auctioned. West By: 18 M Wide Road No. 4

Date & Time of E- Auction 09.03.2021 (Tuesday) between 11.00 a.m. to 12.00 noon

Terms and Conditions of E- Auction The auction sale is being conducted by the Authorised Officer under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through e-auction mode Auction/Bidding shall be only through "Online Electronic Mode" through the website https://www.bankeauctions.com. M/s. C1 India Private Limited is the service provider to arrange platform for e-auction. 2. The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in and the respective links mentioned in each of the items herein above as well as the web

site of the service provider, www.bankeauctions.com for bid documents, the details of the secured asset put up for auction / obtaining the bid form 3. The bidder(s) may participate in the e-auction quoting/bidding from their own offices/place of their choice. Internet connectivity shall have to be arranged by each bidder himself/itself. The Authorised Officer/Phoenix/service provider shall not be held responsible for the internet connectivity network problems, system crash down, power failure etc. 4. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Mr. Hareesh Gowda / Mr. Jay Singh of M/s

C 1 India Private Limited, Contact Number: 91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, +91-22-66865600, +91-7738866326, 91-959459755 /07291981124/25/26, email id: support@bankeauctions.com 5. Bidders may go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in for verifying the details of the secured asset put up for auction.

6. The e-auction will be conducted on the date and time mentioned herein above, when the secured assets mentioned above will be sold on "A IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WITHOUT RECOURSE" condition.

7. All the intending purchasers/bidders are required to register their name in the portal mentioned above as https://www.bankeauctions.com an

get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on the date and time as mentioned aforesaid.

8. For participating in the e-auction, intending purchaser(s)/bidder(s) will have to submit the details of payment of refundable Earnest Money Depos of 10% of the reserve price of the secured asset along with copy of PANCARD, Board Resolutions (in case of a Company) and Address Proof or

or before 08.03.2021 (Monday) before 7pm. 9. The successful purchaser/bidder shall deposit the 25% (inclusive of EMD) of his/her/its offer for each item by way of RTGS/NEFT to the accour mentioned herein above on 09.03.2021 (Tuesday) before 7 PM i.e. day of auction, which deposit will have to be confirmed by Phoenix, failin

which the sale will be deemed to have been failed and the EMD of the said successful bidder shall be forfeited. 10. The EMD of all other bidder(s) who did not succeed in the e-auction will be refunded by Phoenix within 72 hours of the closure of the e-auction

11. The balance amount of purchase consideration shall be payable by the successful purchaser/bidder on or before the fifteenth (15th) day from the date of confirmation of sale of the said secured asset by the Authorised Officer/Secured Creditor or such extended period as may be agree

upon in writing by the Authorised Officer at his/her discretion. In case of default, all amounts deposited till then shall be liable to be forfeited. 12. For inspection of properties or more information, the prospective bidders may contact Mr. Harsh Magia / Mr. Suresh Variyam / Mr. Mahesh Malunjkar at above mentioned address or at harsh.magia@phoenixarc.co.in / suresh.variyam@phoenixarc.co.in / Mahesh.m@phoenixarc.co.i (email) or on 07506107562 / 07506490036/ 09920381684 (Mob).

13. At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the bid/offer or post-pone the auction without assigning an reason thereof and without any prior notice. 14. The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be pai

in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.

15. The payment of all statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody shall be the sole responsibility. ty of the successful bidder only. 16. The successful purchaser/bidder shall be solely responsible for any cost / expenses / fees / charges etc. payable to the society/any other author

ity towards the transfer of the rights in its / his / her favour. 17. The Borrower/Guarantors, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 (6) of the Securit

Interest (Enforcement) Rules, about the holding of abovementioned auction sale. 18. The intending bidders should make their own independent enquiries regarding encumbrances, title of secured asset put on auction and claims/rights/dues affecting the secured assets, including statutory dues, etc prior to submitting their bid. The auction advertisement does not con

stitute and will not constitute any commitment or any representation of Phoenix. The authorized officer of Phoenix shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/due. 19. The particulars specified in the auction notice published in the newspaper have been stated to the best of the information of the undersigned

however, undersigned shall not be responsible/liable for any error, misstatement or omission.

20. In the event, the auction scheduled hereinabove fails for any reason whatsoever, Phoenix has the right to sell the secured asset by any other methods under the provisions of Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and SARFAESI Act, 2002.

> **Authorised Office** Phoenix ARC Private Limited, (Trustee of Trusts mentioned above)

Place: Delhi NCR Date: 16.02.2021

लूटपाट के बाद सबूत

मिटाने के लिए जला देते थे बाइक, दो गिरफ्तार

नर्ड दिल्ली। आउटर नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक शातिर चोर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में रिसीवर भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल

सेजवाल और विशाल सोनी है। पुलिस की माने तो आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए बाइक में आग लगा देते थे, जिससे पुलिस उन तक न

पहुंच सके। आरोपियों पर लूटपाट के

दौरान चाक मारने का मामला दर्ज है।

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले

की जांच कर रही है। पुलिस के

मृताबिक, कुछ दिनों पहले नरेला

इंडस्टियल क्षेत्र में सडक पर बाइक

ठीक से चलाने को लेकर कुछ लडकों

के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके

बाद आरोपी राहुल ने एक लड़के को

चाकु मार दिया था। इसके बाद आरोपी

मौके से फरार हो गया। युवक की

शिकायत के बाद पुलिस ने मामला

दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुप्त

सूचना के बाद हेंड कांस्टेबल नरेंद्र

और अनिल कमार की टीम ने

आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों

की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आठ मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह

मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं।

हत्या के बाद खुद थाने पहुंच कर किया सरेंडर

अवैध संबंधों के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिर्ल्ल

पटपड्गंज औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके में एक शख्स ने वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने में पहुंचा और पुलिस को हत्या की बात बताई। सूचना मिलते ही पुलिस युवक को लेकर उसके घर गई।

पुलिस को मौके से खुन से लथपथ महिला की लाश मिली। मृतका का नाम आशा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि



उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके पडोसी युवक से उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। इसी बात पर झगड़े के बाद उसने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर

दी। पुलिस आरोपी से पुछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मृताबिक, आशा, कला निकेतन स्कल, गाजीपर गांव में रहती सपरिवार रहती थी। परिवार में पति जगदीश के

का जुतों का काम है। जगदीश ने पुलिस को बताया कि उसे लगता था कि उसकी पत्नी पड़ोसी शख्स से मिलती-जलती है। दोनों के बीच अवैध संबंध भी है। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगडा होता था। रविवार तड़के दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद जगदीश ने पत्नी का गला रेत दिया। हत्या करने के बाद वह खुद ही थाने पहुंच गया। पलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला के परिजनों व उसके मिलने-जलने वाले लोगों से पूछताछ कर





नई दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखते किसान।

जेएनयू में १

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अभी पूरी तरह से छात्रों के लिये खुला भी नहीं है और मारपीट व झगडे के मामले सामने आने लगे हैं। रविवार रात भी यहां छात्रों के दो गूटों में भिड़ंत हो गई। इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मामले में कोई शिकायत भी नहीं मिली है। जैसे ही शिकायत आएगी कार्रवाई करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीसीपी इंगति प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार रात पेरियार हॉस्टल का एक छात्र मेस की खराब सुविधाओं की शिकायत करने वार्डन के पास गया था। कुछ छात्रों ने उसकी शिकायत का विरोध किया। सोमवार को वहीं छात्र कुछ अन्य छात्रों के साथ वार्डन के ऑफिस में बैठा हुआ था। सभी की मेस की सुविधाओं पर चर्चा हो रहीं थी। इसी दौरान दूसरे ग्रुप के छात्र वहां पहुंचे और उनमें पहले गर्मागर्मी हुई और बाद में

सकंद्रे आज्ञम हाशमी अमरोहा द्वारा निर्मि नई ताकत, सेहत, जवानी व

उमंग के साथ सुखमय विवाहित जीवन का आनन्द लें जी भर कर मेडिकल स्टोर से खरीदें या फोन करें 09212358677 09015270020

मल्टी लेवल मार्केटिंग के झांसे में करोड़ों की टगी, नौ साल बाद हुआ गिरफ्तार

हरिभुमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड में लोगों को चूना लगाने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुये इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। कपिल देव पसरीचा नामक यह आरोपी नौ साल बाद पुलिस के हाथ लगा। देश के कई राज्यों से



इसके खिलाफ पुलिस को मिल चुकी थी शिकायत

 बड़ी मात्रा में धन एकत्रित कर आरोपी हो गये थे

देश के कई राज्यों से

इसके खिलाफ शिकायत पुलिस को मिल चुकी थी। ज्वाइंट सीपी

2012 में रेखा पॉल, सुबोध मंडल और अरिंदम नामक लोगों की एक संयक्त शिकायत पर इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

यह केस तीस हजारी कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार मनी भंडार नाम की कंपनी के डायरेक्टर कपिल देव पसरीचा पर आरोप था कि इन्होंने

जनकपरी और मीरा बाग में ऑफिस खोलकर वेस्ट बंगाल के कई लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग में निवेश का झांसा देकर चुना लगाया। पीडितों में कुछ असम और उड़ीसा के लोग भी शामिल थे। बडी मात्रा में धन एकत्रित कर आरोपी कंपनी के

ऑफिस बंद कर फरार हो गये थे।

अलग अलग बैंकों के खातों को

उससे पता चला कि कपिल ही ऑफिसियल हस्ताक्षरकर्ता था। उसकी कंपनी आरबीआई में एमबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी। यानि वह किसी भी पिंक्लिक इंवेस्टर्स से पैसा लेने की हकदार नहीं थी। ठगी गई रकम का

गढवाल से पकड लिया गया। आरोपी ने अपना नाम भी बदलकर कपिल शर्मा रख लिया था।

छह से सात करोड़ के आसपास

होना पाया गया। आरोपी केस दर्ज

होने के बाद से ही फरार चल रहा

था। हाल में उसके हरिद्वार में होने

का पता चला था। पुलिस ने

उत्तराखंड में कई जगह छापेमारी

की और आखिर में उसे टिहरी

टक की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की जलकर मौत

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

शास्त्री पार्क थाना इलाके में टक और बाइक की भिडंत में बाइक सवार होम गार्ड की जलकर मौत हो गई। हादसे में टुक भी जल गया और बाइक जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मतक का नाम तिलक राज (48) है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ट्रक के नंबर की मदद से आरोपी ट्रंक चालक की तलाश कर रही है।

राज, बाबरपुर में सपरिवार रहता था। परिवार में पिता सत्यपाल, पत्नी, दो बच्चे और अन्य सदस्य हैं। वह डीटीसी बस में होम गार्ड के पद पर तैनात था। रविवार देर रात ड्यूटी



हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार

टक मालिक को दिया १३३ का नोटिस

मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ट्रक मालिक के पास पहुंची। पुलिस ने ट्रक मालिक को 133 का नोटिस दिया है। हादसे के बौरान ट्रक कपड़ों से लधा हुआ था।

बाइक के चेसिस नंबर से हुई मृतक की पहचान

हादसे के बाद मृतक पूरी तरह जल चुका था। पुलिस को उसकी पहचान करने में काफी दिक्कत हुई। इसके बांद पुलिस ने बाइक के चेसिस नंबर से उसकी पहचान करने की कोशिश की तो पलिस को चेसिस नंबर भी परा नहीं मिला। इसके बाद पुलिस बाइक के शोरूम गई और आधे चेसिस नंबर के आधार पर मृतक की पहचान करने में जूट गई। जांच में पुलिस को यमुनापार में दो लोगों के नाम पर एवेंजर बाइक रजिस्टर्ड मिली। इसके बाद पुलिस दोनों के घर पहुंची। जहां मृतक की शिनाख्त हुई।

पुलिस के मुताबिक, तिलक खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रात करीब तीन बजे जैसे ही वह लोहे वाले पुल से आगे शास्त्री पार्क टी-प्वॉइट के पास स्थित पुलिस बूथ के पास पहुंचा। तभी अचानक ट्रक

और बाइक की भिडंत हो गई। भिडंत होते ही टक और बाइक में आग लग गई। आग की चपेट में आने से तिलक राज की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

बिहार की असिस्टेंट

कमिश्नर के गले से

सोने की चेन तोडी

नई दिल्ली। मुखर्जी नगर थाना

इलाके में बिहार सरकार में

कमर्शियल टैक्स विभाग की

असिस्टेंट कमिश्नर की सोने की

चेन एक बदमाश तोडकर फरार हो

गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता

निवेदिता की शिकायत पर मामला

दर्ज कर लिया है। पुलिस

घटनास्थल के आसपास लगे

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, निवेदिता, बिहार सरकार में कमर्शियल टैक्स विभाग में

असिस्टेंट कमिश्नर हैं। फिलहाल

वह अपने पति के घर दिल्ली आईं

हुईं थीं। वारदात के समय वह अपने

पति और सास के साथ पजा का

सामान लेने के लिए किंग्सवें कैम्प

के पास आई थी। इसी दौरान

बदमाश ने वारदात को



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात, पुत्रः अज्ञात, पताः अज्ञात, जोकि दिनांक 03.02.2021 को राधा कृष्णा मंदिर के नजदीक, मुकरबा चौक, भलस्वा डेयरी, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया। इस सन्दर्भ में FIR No. 53/21 Dated 03.02.2021 u/s 279/304A

IPC पुलिस धाना, भलस्वा डेयरी, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान दी गई है:

नामः अज्ञात, उम्रः लगभग 38 वर्ष, कदः 5'6", रंगः गेहुँआ, शरीरः पतला, पहनावाः गुलाबी रंग की शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट।

अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

DP/786/ON/2021

पुलिस थाना, भलस्वा डेयरी, दिल्ली फोनः 011-27811933, 7065036328

गुमशुदा का तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की एक लड़की जिसका नाम प्रेरणा, पुत्री चंडी प्रसाद पता— बी -76, दूरसचार स्टाफ क्वार्टर, विवेक विहार, शाद, दिल्ली। उक्त लड़की दिनांक 05.02. 2021 से अपने घर से गूमशूदा है। इस संबंध में डीडी नं 39ए दिनांक 06.02.2021, को पुलिस थाना विवेक विहार, दिल्ली में दर्ज है। रथानीय पुलिस द्वारा इस गुमशुदा लड़की की तलाश करने की कोशिश की गयी हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग 🗪 नहीं मिल पाया। इस गुमशुदा लड़की का विवरण



शाना पभारी

नामः प्रेरणा, लिंगः स्त्री, उम्रः 24 वर्ष, कदः 5'6", रंगः मेहुँआ, चेहराः लम्बा, शारीरिक गठनः मध्यम्, पहनावाः ग्रे रंग की जैकेट, काले रंग की जींस और

इस गुमशुदा लड़की के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया थाना प्रभारी विवेक विहार, दिल्ली को सूचित करे।

ई-मेल : cic@cbi.gov.in फोन: 011-24368638, 24368641 फैक्स : 011-24368639

थाना प्रभारी पुलिस थाना, विवेक विहार, दिल्ली

सहायक अभियंता दिल्ली सराय रोहिल्ला के

09 03 2021 को 15.00 बजे तक तथा

दिनांकः 12.02.2021

DP/356/SHD/2021 फोन न.: 011-22146040, 22150370

उत्तर रेलवे निविदा सूचना ई-निविदा (ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

33-2020-21-डल्ट्-5 एन आई टी काम का नाम (स्थान के

			अनुमाग में गढ़ी हरसरू यार्ड में लाइन नं-05 और 06 के विस्तार का कार्य। समान कार्य की प्रकृति:- CTR / TRR / TFR / TTR जिसमें ट्रैक को ऊपर उठाना, डीपिंग स्क्रीनिंग, ट्रैक की ळथा, ट्रैक मेंटेनेंस मशीन के लिए भी एंड गोस्ट कार्य, टीआरटी / पीक्यूआरएस / गिंट्टी, टी-28 के लिए स्क्रीनिंग / रेगुलेटिंग मशीन और टीटीआर शामिल हैं।
2	काम की अनुमानित लागत	1	₹. 1,38,33,194.08
3	अग्रिम राशि		(यह नेट बैंकिंग के रूप में होना चाहिए या कंवल भुगतान गेटवे द्वारा।) (नोट.— रेलवे बोर्डों के पत्र रांख्या 2015/ रोडिं—आई/ सोटी/5/1 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार जो टेंडर आई आर ई मी एरा पर आमंत्रित किया गया है उरामें एफडीआर को निवेदा के लिए, ईएमडी के रूप में. स्वीकार नहीं किया जाएगा।)
		1	₹. 2,19,200.00
			यह नेट बँकिंग कें रूप में होना चाहिए या भुगतान गेटवें द्वारा केंवल।
4	काम की समाप्ति अवधि	-1	08 महीने

निविदा खोलने के लिए दिनांक 09.03.2021 को 15.00 बजे निविदा खोलना वेबसाइट के विवरण का यह निविदा आई.आर.ई.पी.एस. वेबसाइट नोटिस बोर्ड स्थान निविदा का अर्थात www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है पूरा विवरण देखा जा सकता है

सं.: 128-W/280/O.E.T.-20-21-WV-NIT-33

निविदा प्रस्तुत करने और

CIN: L74900HR1994PLC033268; पंजी. कार्यालय : गांव खेड़की दौला, पी.ओ. नरसिंगपुर, जिला गुड़गांव, हरि.-122001 Phone no: 0124-2322570 ; website: www.ankaindia.com

31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वितीय परिणामों का सार

			No. 17	राशि रु. लाख में			
इक्त.	विवरण	समाप्त तिमाही (अअंकेक्षित)					
सं.	10000	31- दिस,-20 अअंकेक्षित	31-दिस19 अअंकेक्षित	31- मार्च -20 अंकेक्षित			
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)		0,05	11.03			
2	अविधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(1.40)	(1.31)	0.56			
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(1.40)	(1.31)	0.56			
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(1.40)	(1.31)	0,56			
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]						
6	इक्किटी शेयर कैपिटल (रु. 10/- प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य वाले)	62.74	62.74	62.74			
7	अन्य इक्विटी	NA	NA	NA			
8	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (प्रत्यक्ष मूल्य रू. 10/- प्रत्येक के) बेसिक : डायल्युटेंड :	(0.02) (0.02)	(0.02) (0.02)	0.01 0.01			

उपरोक्त परिणाम सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं वीषणा आवश्यकताएँ) नियमगें, 2015 के नियमन 33 के तहत बीएसर्ट लि. के पास दावर किये गये 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंहअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का गुण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स (<u>www.bseindia.com</u>) के साथ साथ कप्पनी की तेबसाइट (www.ankaindia.com) पर उपलब्ध हैं।

का Mediase (Yverm.a.insaintula.com) पड़ अराज्य है। कम्पनी अग्रेट के रूप में र. 2.5.20 लाख की श्रीश पूर्वावर्ती सबी में भूगतान किये गये न्यूनतम वैकल्पिक कर की यहचान करना जारो रखे हुए है और उम्मीद करती है कि ये गयिष्य कर गुगतानी के तहत समायाजित किये जाने हैं। अंकिक्षकों ने इस पायले के लिये अपनी संबीक्षा स्पिट में संशीधन किया है। पूर्ववर्ती वितीय वर्ष अर्थात 2019 20 के दौरान काटो गई रु. 52000/ और हमारी संवीक्षा अवधि की समाध्यि के अनुसार वर्तमान वितीय वर्ष अर्थात 2020

21 को अयथि 70 अप्रैल - 20 जुन के दौरान काटा गई रु 36,250 की राणि सरकारा खजाने के प्राप्त टाडीएस जमा नहीं करवा चुको है और उसका रिट-दायर करने में भी गुक्तकर्ता रही है। अंकेश्वक इस मामले के लिये अपनी समीक्षा रिपोर्ट संशोधित कर चुके हैं। कायनो दिसम्बर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान धारा 194न के तहत रू. 9,593 की टीडीएस राशि नहीं काट चुकी है। अंकेक्षक इस मामले

के लिये अपनो समीक्षा रिपोर्ट संशोधित कर चुके हैं।

दिनांक : 14 फरवरी 2021

हस्ताः सुलक्षणा त्रिखा निदेशक

डीआईएन : ००113099

पैनाफिक इंडस्ट्रीयल्स लिमिटेड CIN: 145202DL 1985PL C019746

पंजी. कार्यालय : 23, द्वितीय तल, नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू, क्लब रोड, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

	समाप्त तिमाही			समाप्त	लाखों में) समाप्त वर्ष	
विवरण	31- दिस20 अञंकेक्षित	30-सित -20 अअविक्षित	31-दिस19 अअकेक्षित	31- दिस20 अअकेक्षित	31-दिस19 अअकेक्षित	31-मार्च -20 अकेशिक्षत
प्रचालनों से आय	-					
व्याज आय	7,38	2.49	7.68	3.88	42.52	63.06
प्रचालनों से कुल आय	1.38	2.49	7.58	3.88	42.52	63.06
अन्य आय	0.79		later and	75.		0.36
कुल आय	1.38	2.49	7.68	3.88	42.52	63.42
व्यय						1
वेत्तीय लागत	34	340	0.03		10.21	71.86
वेत्तीय उपकरणों पर क्षति		340	4		19.00	128.51
कर्मचारी लाभ व्यय	0.25	0.50	2.02	0.75	15.31	15.72
अवमूल्यन एवं अमोर्टाइजेशन व्यय	12.55	2.7	W. 2	20.2	07.25	3.68
अन्य व्यय	0.34	0.04	2.02	0.51	8.22	13.40
कल ट्यय	0.59	0.54	4.07	1.26	33.74	233.17
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ	0.79	1.95	3.61	2.62	8.78	(169.75)
असाधारण मर्दे	2000	1100	3,41	5000	1000	A.c.
कर से पूर्व लाभ	0.79	1.95	3.61	2.62	8.78	(169.75)
कर व्ययं	200	1000	5.01	2,02	0.10	4100070
वर्तमान कर	0.21	0.51	0.94	0.68	2.28	
विलम्बित कर क्रेडिट/(चार्ज)	0.21	0.91	0.04	0.00	2,20	(32.56)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ (ए)	0.58	1.44	2,67	1.94	6.50	(137.19)
अन्य स्थापन आस	0.30	1022	8,07	1104	0.00	1147.107
परें जो लाभ अथवा हानि के पश्चात पनः वर्गीकत नहीं की जाएंगी						11.7.1
पर जो लाभ अथवा हानि के पश्चान पन वर्गीकत की जाएंगी						
मरें जो लाभ अथवा हानि के परचात पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएँगी मरें जो लाभ अथवा हानि के परचात पुनः वर्गीकृत की जाएँगी अविधि हेतु अन्य व्यापक आय (बी)	1 2	1 4	0.15	4.7	1 7	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (ए+बी)	0.58	1.44	2.67	7.94	6.50	(137:19)
मुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मृल्य रू. 1 प्रति शेयर)	821.25	821.25	821.25	821.25	821.25	821.25
भन्य इक्विटी	021.23	621,23	021,23	621.23	821.25	021.20
अर्जन प्रति इक्कियटो शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 1 प्रत्येक का)	100		100			
बेसिक (रु. में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डायल्युटेड (रु. में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31.12.2020 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणाम 14 फरवरी 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और प्रहण किये गये।

सैगमेंट रिपोर्टिंग लागू योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी गतिविधि एक एकल बिजनेंस सेगमेंट के अंदर आती हैं।

पूर्ववर्ती अविधि के ओकड़े वहां आवश्यक हुआ, रियुष्ट / रिअरेंक्ड कर लिये गये हैं। ऊपर संदर्भित तिमाही के दौरान किसी शेवरथारक की कोई शिकायत / परिवंदना प्राप्त तहीं की गई है और 31.12.2020 को समाप्त तिमाही की

समाप्ति पर कोई शिकायत / परिवेदना अनिर्णीत नहीं हैं।

उपरोक्त परिणाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाइट पर www.bseindia.com पर और कम्पनी की वेबसाइट पर www.panafic.industrials@amail.com कृते व निदेशक मंडल की ओर से सरिता गुप्ता स्थान । नई दिल्ली प्रबंध निर्देशक

रक्षामंत्री ने दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से किया सम्मानित



हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्तों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली दिल्ली पुलिस को केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ट्रॉफी ढेकर सम्मानित किया। बेस्ट मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी आर्म्ड पुलिस के स्पेशल सीपी रोबिन हिब्रू द्वारा रिसीव की गई। इस दौरान रक्षामंत्री द्वारा कोरोना काल में दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये मानव सेवा से संबंधित कार्यों की काफी सराहना भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब अपने नाम करवाने पर दिल्ली पुलिस के अफसरों व जवानों को बधाई भी दी। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, एयर, नवल, डिफेंस सेक्रेटरी और एमएचए के सीनियर रैंक के अधिकारी मौजढ़ थे।

अरविंद केजरीवाल की बेटी को टगने वाले तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी को कथित रूप से ठगने को लेकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस मामले में तकनीकी निगरानी के आधार पर भरतपुर-मथुरा सीमा से साजिद (26), कपिल (18) और मनविंदर सिंह (25) को गिरफ्तार किया गया है। साजिद हरियाण के नृह का निवासी है जबकि कपिल और सिंह मथुरा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी वारिस (25) अब भी फरार है।

ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

अंजाम दिया।

नई दिल्ली। शाहदरा रेलवे पुलिस चौकी इलाके में अलग-अलग समय पर दो लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों के नाम मोहित (24) और राजेंद्र कुमार (49) है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरों में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस दोनों ही मामलों में केस दर्ज मॉमले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मोहित, गली नंबर—आठ, मीत नगर में रहता था। परिवार में पिता विष्णु दत्त के अलावा अन्य सदस्य हैं। कुछ दिनों से मोहित बीमार था तो वह रविवार शाम को घर से घुमने के लिए निकला। मीत नगर स्थित सफेद मंदिर के पास शाम करीब ७:२४ बजे वह ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।